



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ, 1941 (श०)

संख्या- 467 राँची, गुरुवार,

13 जून, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

07 मई, 2019

संख्या-5/आरोप-1-111/2016-2596 (HRMS)-- श्री संतोष गुप्ता, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-रामगढ़), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तहरसी, पलामू के पद पर कार्यावधि से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1877, दिनांक 11.08.2016 द्वारा आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 में 35% कम मानव दिवस सृजन करने एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु डोभा निर्माण योजना में प्रत्येक राजस्व ग्राम में मौनसून के पूर्व पाँच-पाँच डोभा निर्माण कार्य 15 जून, 2016 से पूर्व पूर्ण कराने संबंधी मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-842, दिनांक 10.05.2016 द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7771, दिनांक 07.09.2016 द्वारा श्री गुप्ता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री गुप्ता के पत्रांक-221, दिनांक 13.02.2018 द्वारा प्रतिवेदि आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2860, दिनांक 02.05.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-952, दिनांक 27.03.2019 द्वारा श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर उप विकास आयुक्त-सह-

जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू के पत्रांक-29/मनरेगा, दिनांक 16.01.2019 द्वारा समर्पित मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया है।

श्री गुप्ता के विरुद्ध प्रपत्र-क में प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया वित्तीय वर्ष 2015-16 में वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में कम मानव दिवस का सृजन किया गया, जो अपने स्पष्टीकरण में इनके द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है तथा निर्धारित अवधि तक डोभा निर्माण की पूर्णता का प्रतिशत काफी कम है।

अतः समीक्षोपरांत, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री गुप्ता के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SANTOSH GUPTA JHK/JAS/183	श्री संतोष गुप्ता, झांझरसे (चतुर्थ बैच, गृह जिला-रामगढ़), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तहरसी, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
